



SBI PO 2023



REASONING

MOCK TEST

SET-6

EXAM से पहले इसे जरूर देखें।

LIVE 09:00 AM



Join my **TELEGRAM GROUP**



@reasoningbybasantsir



Daily PDF of all YT sessions



Discussion / Doubt Solving



Direct Interaction with me



Quiz



Polls





SBI CLERK 2023



ZERO

REASONING

to

HERO

Day-3

सफलता का महामंत्र

LIVE

12:00 PM





What's Inside

Uncertain Seating	5Q
Square Table Seating-	5Q
Blood Relation-	3Q
Inequality	5Q
Box Puzzle	5Q



Few people are sitting in a row facing North. 3 persons are sitting between M and N. K is third to the right of N. K is second to the left of P. Number of people between M and P is same as the number of people between M and L. Only three people sit to the left of L. Six persons sit between L and J. Two people sit between P and R. R is sitting at the second position from one of the ends. 1.

कछ लोग उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। M और N के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। K, N के दाएँ से तीसरे स्थान पर है। L के बाईं ओर। L और J के बीच छह व्यक्ति बैठे हैं। P और R के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। R एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है।



Few people are sitting in a row facing North. 3 persons are sitting between M and N. K is third to the right of N. K is second to the left of P. Number of people between M and P is same as the number of people between M and L. Only three people sit to the left of L. Six persons sit between L and J. Two people sit between P and R. R is sitting at the second position from one of the ends. 1.

How many persons are sitting in the row?

- a. 27
- b. 28
- c. 19
- d. 18
- e. 26



Few people are sitting in a row facing North. 3 persons are sitting between M and N. K is third to the right of N. K is second to the left of P. Number of people between M and P is same as the number of people between M and L. Only three people sit to the left of L. Six persons sit between L and J. Two people sit between P and R. R is sitting at the second position from one of the ends. 1.

What is the position of J with respect to M?

- a. 2nd to left**
- b. 3rd to right**
- c. 2nd to right**
- d. 3rd to left**
- e. Immediate left**



Few people are sitting in a row facing North. 3 persons are sitting between M and N. K is third to the right of N. K is second to the left of P. Number of people between M and P is same as the number of people between M and L. Only three people sit to the left of L. Six persons sit between L and J. Two people sit between P and R. R is sitting at the second position from one of the ends. 1.

How many persons are sitting between M and P?

- a. 9**
- b. 12**
- c. 8**
- d. 7**
- e. 10**



Few people are sitting in a row facing North. 3 persons are sitting between M and N. K is third to the right of N. K is second to the left of P. Number of people between M and P is same as the number of people between M and L. Only three people sit to the left of L. Six persons sit between L and J. Two people sit between P and R. R is sitting at the second position from one of the ends. 1.

Which of the following statements is true?

- a. J sits to the right of K.**
- b. Seven people are sitting between N and R.**
- c. Less than 10 people sit between P and L.**
- d. 9 people sit between J and P.**
- e. None of the statements is correct.**



Few people are sitting in a row facing North. 3 persons are sitting between M and N. K is third to the right of N. K is second to the left of P. Number of people between M and P is same as the number of people between M and L. Only three people sit to the left of L. Six persons sit between L and J. Two people sit between P and R. R is sitting at the second position from one of the ends. 1.

How many people are sitting to the left of K?

- a. 19
- b. 8
- c. 9
- d. 15
- e. 12



8 people D, E, F, G, H, I, J and K are sitting around a square table in such a way that four of them sit at the corners while four of them sit in the middle of each of the four sides. The ones sitting in the middle of the sides are facing the centre and the ones sitting at the corners are facing outside. F sits second to the right of G and only 3 people sit between F and J. Only 1 person sits between J and I (either from left or right). D sits second to the left of K and is neither an immediate neighbour of I nor of J. Only 3 people sit between D and E. E does not sit at any of the corners of the table.

8 व्यक्ति D, E, F, G, H, I, J और K एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से चार कोनों पर बैठे हैं जबकि उनमें से चार चारों भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। भुजाओं के मध्य में बैठे व्यक्ति केंद्र की ओर उन्मुख हैं और कोनों पर बैठे व्यक्ति बाहर की ओर उन्मुख हैं। F, G के दाएँ दूसरे स्थान पर बैठा है और F और J के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। J और I के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है (या तो बाएँ से या दाएँ से)। D, K के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और वह न तो I का और न ही J का निकटतम पड़ोसी है। D और E के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। E मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है।



8 people D, E, F, G, H, I, J and K are sitting around a square table in such a way that four of them sit at the corners while four of them sit in the middle of each of the four sides. The ones sitting in the middle of the sides are facing the centre and the ones sitting at the corners are facing outside. F sits second to the right of G and only 3 people sit between F and J. Only 1 person sits between J and I (either from left or right). D sits second to the left of K and is neither an immediate neighbour of I nor of J. Only 3 people sit between D and E. E does not sit at any of the corners of the table.

Who sits 3rd to the right of H?

- a. D**
- b. E**
- c. J**
- d. G**
- e. F**



8 people D, E, F, G, H, I, J and K are sitting around a square table in such a way that four of them sit at the corners while four of them sit in the middle of each of the four sides. The ones sitting in the middle of the sides are facing the centre and the ones sitting at the corners are facing outside. F sits second to the right of G and only 3 people sit between F and J. Only 1 person sits between J and I (either from left or right). D sits second to the left of K and is neither an immediate neighbour of I nor of J. Only 3 people sit between D and E. E does not sit at any of the corners of the table.

What is the position of I with respect to E?

- a. 2nd to the right**
- b. 3rd to the left**
- c. immediate right**
- d. immediate left**
- e. 2nd to the left**



8 people D, E, F, G, H, I, J and K are sitting around a square table in such a way that four of them sit at the corners while four of them sit in the middle of each of the four sides. The ones sitting in the middle of the sides are facing the centre and the ones sitting at the corners are facing outside. F sits second to the right of G and only 3 people sit between F and J. Only 1 person sits between J and I (either from left or right). D sits second to the left of K and is neither an immediate neighbour of I nor of J. Only 3 people sit between D and E. E does not sit at any of the corners of the table.

Which of the following statements is/are true as per the given arrangement?

I. G is facing inside.

II. H is an immediate neighbour of J.

III. G is sitting to the immediate left of K.

a. Only I follow.

b. Only II follow.

c. Only III follow.

d. Both I and II follow.

e. Both II and III follows.



8 people D, E, F, G, H, I, J and K are sitting around a square table in such a way that four of them sit at the corners while four of them sit in the middle of each of the four sides. The ones sitting in the middle of the sides are facing the centre and the ones sitting at the corners are facing outside. F sits second to the right of G and only 3 people sit between F and J. Only 1 person sits between J and I (either from left or right). D sits second to the left of K and is neither an immediate neighbour of I nor of J. Only 3 people sit between D and E. E does not sit at any of the corners of the table.

Which of the following does not belong to the group?

- a. F
- b. J
- c. G
- d. I
- e. K



8 people D, E, F, G, H, I, J and K are sitting around a square table in such a way that four of them sit at the corners while four of them sit in the middle of each of the four sides. The ones sitting in the middle of the sides are facing the centre and the ones sitting at the corners are facing outside. F sits second to the right of G and only 3 people sit between F and J. Only 1 person sits between J and I (either from left or right). D sits second to the left of K and is neither an immediate neighbour of I nor of J. Only 3 people sit between D and E. E does not sit at any of the corners of the table.

How many people sit between K and J when counted from the right of J?

- a. Four**
- b. Five**
- c. Six**
- d. None**
- e. Two**



C, D, H, N, P, S and U are seven members of a family. D is the mother of F, N is the son of F. H is the only sister of N and U, S is the father of U. S is the son of C.

C, D, H, N, P, S और U एक परिवार के सात सदस्य हैं। D, F की माँ है, N, F का पुत्र है। H, N और U की एकमात्र बहन है, S, U का पिता है। S, C का पुत्र है।

If P is the father-in-law of F, then how is C related to U?

- a. Grandmother
- b. Grandfather
- c. Father
- d. Mother
- e. Can't be determined



C, D, H, N, P, S and U are seven members of a family. D is the mother of F, N is the son of F. H is the only sister of N and U, S is the father of U. S is the son of C.

C, D, H, N, P, S और U एक परिवार के सात सदस्य हैं। D, F की माँ है, N, F का पुत्र है। H, N और U की एकमात्र बहन है, S, U का पिता है। S, C का पुत्र है।

How is H related to F?

- a. Son
- b. Daughter
- c. Husband
- d. Wife
- e. Father



C, D, H, N, P, S and U are seven members of a family. D is the mother of F, N is the son of F. H is the only sister of N and U, S is the father of U. S is the son of C.

C, D, H, N, P, S और U एक परिवार के सात सदस्य हैं। D, F की माँ है, N, F का पुत्र है। H, N और U की एकमात्र बहन है, S, U का पिता है। S, C का पुत्र है।

How is N related to D?

- a. Grandson**
- b. Wife**
- c. Daughter**
- d. Granddaughter**
- e. Son**



Statement:

$A \geq B > F; B > M > O; F > S; R < S$

Conclusion:

I. $S < A$

II. $F < O$

- a. Only conclusion I follows.**
- b. Only conclusion II follows.**
- c. Either conclusion I or II follows.**
- d. Both conclusions I and II follow.**
- e. Neither conclusion I nor II follows.**



Statement:

$D \leq R > E \leq B; S \leq M = E > D; G > B$

Conclusion:

I. $D > G$

II. $B < R$

- a. Only conclusion I follows.
- b. Only conclusion II follows.
- c. Either conclusion I or II follows.
- d. Both conclusions I and II follow.
- e. Neither conclusion I nor II follows.



Statement:

$$E \leq S > F \leq C; T \leq N = F > E; H > C$$

Conclusion:

I. $T < C$

II. $C = T$

- a. Only conclusion I follows.
- b. Only conclusion II follows.
- c. Either conclusion I or II follows.
- d. Both conclusions I and II follow.
- e. Neither conclusion I nor II follows.



Statement:

$$M = L \geq N \geq Q < P < V \geq S; Q > G$$

Conclusion:

- I. $G \geq S$
- II. $M > G$

- a. Only conclusion I follows.
- b. Only conclusion II follows.
- c. Either conclusion I or II follows.
- d. Both conclusions I and II follow.
- e. Neither conclusion I nor II follows.



Statement:

$$Q > A \geq Z \leq X \leq C; Z \geq H$$

Conclusion:

I. $Q > H$

II. $Z \leq C$

- a. Only conclusion I follows.
- b. Only conclusion II follows.
- c. Either conclusion I or II follows.
- d. Both conclusions I and II follow.
- e. Neither conclusion I nor II follows.



Statement:

$$Q > A \geq Z \leq X \leq C; Z \geq H$$

Conclusion:

I. $Q > H$

II. $Z \leq C$

- a. Only conclusion I follows.
- b. Only conclusion II follows.
- c. Either conclusion I or II follows.
- d. Both conclusions I and II follow.
- e. Neither conclusion I nor II follows.



There are 9 boxes kept one above the other. There are 5 boxes between box P and box R. Box T is kept immediately above R. 3 boxes are kept between box T and box S. Number of boxes between P and S is same as the number of boxes between T and Q. Box U is kept below box Q. Box W is kept somewhere below X. There is only one box kept between U and V. U is above V.

वहाँ 9 बक्से एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। बॉक्स P और बॉक्स R के बीच 5 बॉक्स हैं। बॉक्स T को R के ठीक ऊपर रखा गया है। बॉक्स T और बॉक्स S के बीच 3 बॉक्स रखे गए हैं। P और S के बीच बॉक्स की संख्या T और Q के बीच बॉक्स की संख्या के समान है। बॉक्स U को बॉक्स Q के नीचे रखा गया है। बॉक्स W को X के कहीं नीचे रखा गया है। U और V के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। U, V के ऊपर रखा गया है।



There are 9 boxes kept one above the other. There are 5 boxes between box P and box R. Box T is kept immediately above R. 3 boxes are kept between box T and box S. Number of boxes between P and S is same as the number of boxes between T and Q. Box U is kept below box Q. Box W is kept somewhere below X. There is only one box kept between U and V. U is above V.

Which of the following statements is not true?

I. There are two boxes between T and Q.

II. S is kept below W.

III. U is kept immediately above P.

a. Only I

b. Only II

c. Only III

d. Both II and III

e. All I, II and III



There are 9 boxes kept one above the other. There are 5 boxes between box P and box R. Box T is kept immediately above R. 3 boxes are kept between box T and box S. Number of boxes between P and S is same as the number of boxes between T and Q. Box U is kept below box Q. Box W is kept somewhere below X. There is only one box kept between U and V. U is above V.

To which of the following is U related in the same manner?

- a. W**
- b. R**
- c. S**
- d. T**
- e. X**



There are 9 boxes kept one above the other. There are 5 boxes between box P and box R. Box T is kept immediately above R. 3 boxes are kept between box T and box S. Number of boxes between P and S is same as the number of boxes between T and Q. Box U is kept below box Q. Box W is kept somewhere below X. There is only one box kept between U and V. U is above V.

How many boxes are kept between X and P?

- a. Five**
- b. Two**
- c. Three**
- d. Four**
- e. None**



There are 9 boxes kept one above the other. There are 5 boxes between box P and box R. Box T is kept immediately above R. 3 boxes are kept between box T and box S. Number of boxes between P and S is same as the number of boxes between T and Q. Box U is kept below box Q. Box W is kept somewhere below X. There is only one box kept between U and V. U is above V.

Which of the following pair of box is kept immediately above and below box Q respectively?

- a. XS**
- b. SX**
- c. RW**
- d. WR**
- e. None of these**



There are 9 boxes kept one above the other. There are 5 boxes between box P and box R. Box T is kept immediately above R. 3 boxes are kept between box T and box S. Number of boxes between P and S is same as the number of boxes between T and Q. Box U is kept below box Q. Box W is kept somewhere below X. There is only one box kept between U and V. U is above V.

What is the position of box W in the given arrangement?

- a. Between P and V**
- b. Fourth from the top.**
- c. Sixth form the bottom.**
- d. Fourth from the bottom.**
- e. Between R and Q.**



SBI CLERK 2023



ZERO

REASONING

to

HERO

Day-2

सफलता का महामंत्र

LIVE

12:00 PM



Join my **TELEGRAM GROUP**



@reasoningbybasantsir



Daily PDF of all YT sessions



Discussion / Doubt Solving



Direct Interaction with me



Quiz



Polls





Thank
you!